



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 454 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 11, 1983/आश्विन 19, 1905

No. 454]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 1983/ASVINA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1983

का. आ. 728(अ)/18कक/आई डी आर ए/83.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 267(अ)/18कक/आई डी आर ए/78, तारीख 13 अप्रैल, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मेंसर्स श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोल्लगर, जिला हुगली, पश्चिमी बंगाल नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन 12 अप्रैल, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 291(अ)/18कक/आईडीआरए/83, तारीख 12 अप्रैल, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 12 अक्टूबर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकोहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, कलकत्ता के अधीन 12 अक्टूबर, 1984 तक की, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 12 अक्टूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 3(3)/80-सी यू एस.]

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

## ORDERS

New Delhi, the 11th October, 1983

S.O. 728(E)|18AA|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 267 (E)|18AA|IDRA|78, dated the 13th April, 1978 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole of the Industrial Undertaking known as Messrs Sri Durga Cotton Spinning and Weaving Mills Limited, Konnagar, District Hooghly, West Bengal, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 12th April, 1983, and the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 291 (E)|18AA|IDRA|83, dated the 12th April, 1983, the period of the said order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 12th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, for a further period of one year upto and inclusive of the 12th October, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1984.

[File No. 3 (3)|80-CUS]

का. आ. 729 (अ)/18चख/आई डी आर ए/83 :—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 506(अ)/18 च ख/आई डी आर ए/78, तारीख 18 अगस्त, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, परिनिर्धारणों, पंखादों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और

वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं), जिनका मसर्स श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोल्लगार, जिला हुगली, पश्चिमी बंगाल नामक उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हैं, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पहले उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि जन-साधारण के हित में यह आवश्यक है कि उक्त आदेश का प्रभाव पूर्वोक्त एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी रहे, 12 अक्टूबर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे जारी रहने के लिए, समय-समय पर, घोषणा जारी की थी [वेचिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास के आदेश सं. का. आ. 455(अ)/18 चख/आई डी आर ए/79, तारीख 9 अगस्त, 1979, का. आ. 628 (अ)/18चख/आई डी आर ए/80, का. आ. 651(अ)/18 चख/आई डी आर ए/81 तारीख 14 अगस्त, 1981, का. आ. 600 (अ)/18 चख/आई डी आर ए/82, तारीख 17 अगस्त, 1982 और का. आ. 292/18 चख/आई डी आर ए/83, तारीख 12 अप्रैल, 1983] ;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को, 12 अक्टूबर, 1984 तक की और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को, 12 अक्टूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[फा. सं. 3 (3)/80-सी यू एस]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

S.O. 729(E)|18FB|IDRA|83.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 506 (E)|18FB|IDRA|78, dated the 18th August, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertakings, known as Messrs Sri Durga Cotton Spinning and Weaving Mills Limited, Konnagar, District Hooghly, West Bengal is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all rights, privileges, obligations and liabilities, accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is necessary in the interest of the general public that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of one year aforesaid, had declared from time to time, for such continuance, for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1983 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development Nos. S.O. 455 (E)|18FB|IDRA|79, dated the 9th August, 1979, S.O. 628 (E)|18FB|IDRA|80, dated the 18th August, 1980, S.O. 651(E)|18FB|IDRA|81, dated the 14th August, 1981, S.O. 600 (E)|18FB|IDRA|82, dated the 17th August, 1982 and S.O. 292|18FB|IDRA|83. dated the 12th April, 1983;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 12th October, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1984.

[File No. 3 (3)|80-CUS]  
A.P. SARWAN, Joint, Secy.

